




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 208]  
No. 208]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 16, 1979/वैशाख 26, 1901  
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 16, 1979/VAISAKHA 26, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग  
अधिसूचनाएं  
नई दिल्ली, 16 मई, 1979

in the State of Tamil Nadu to fill the said vacancy before 25 June, 1979, in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder.

[No. 100/TN-HP/1/79(1)]

का०भा० 288(अ).—तमिलनाडु राज्य के 30-नागापट्टीनम (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री एस० जी० मुकुन्दाण की मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप उस सदन में स्थान रिक्त हो गया है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन-क्षेत्र से एतद्वारा यह अपेक्षा करता है कि वे उक्त रिक्ति को भरने के लिए तारीख 25 जून, 1979 से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तद्विधी बनाए गए नियमों और प्रादेशों के अनुसार तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/त० ना०-लो० सं०/1/79(1)]

## ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATIONS

New Delhi, the 16th May, 1979

S.O. 288(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the death of Shri S. G. Murugaian a member elected to that House from 30-Nagapattinam (SC) parliamentary constituency in the State of Tamil Nadu;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect a person belonging to the Scheduled Castes

का०भा० 289(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/त० ना०-लो० सं०/1/79(1), तारीख 16 मई, 1979 के अनुसरण में तमिलनाडु राज्य के 30-नागापट्टीनम (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में, —

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख               | 23 मई, 1979<br>(बुधवार)  |
| (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख                 | 24 मई, 1979<br>(बुधवार)  |
| (ग) अध्याधिताएं वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख          | 26 मई, 1979<br>(शनिवार)  |
| (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा       | 17 जून, 1979<br>(रविवार) |
| (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा | 25 जून, 1979<br>(सोमवार) |

एतद्वारा नियत करता है।

[सं० 100/त० ना०-लो० सं०/1/79 (2)]

**S.O. 289(E).**—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect of to the bye-election to be held in 30-Nagapattinam (SC) parliamentary constituency in the State of Tamil Nadu in pursuance of its notification No. 100/TN-HP/1/79(1), dated 16 May, 1979,—

- (a) 23 May, 1979 (Wednesday), as the last date for making nominations ;
- (b) 24 May, 1979 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations.
- (c) 26 May, 1979 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures ;
- (d) 17 June, 1979 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary be taken ; and
- (e) 25 June, 1979 (Monday), as the date before which the election shall be completed

[No. 100/TN-HP/1/79(2)]

का०आ० 290(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/त० ना० स०/1/79(1), तारीख 16 मई, 1979 के अनुसरण में, 30- नागापट्टीनम (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले उप-निर्वाचन के लिए 8 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा।

[सं० 100/त० ना० स०/1/79(3)]

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव

**S.O. 290(E).**—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 8.00 a.m. to 4.00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 30-Nagapattinam (SC) parliamentary constituency to be held in pursuance of its notification No. 100/TN-HP/1/79(1) dated 16 May, 1979.

[No. 100/TN-HP/1/79(3)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.